### MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492
(An ISO 14001-2004 Certified Company)

Corporate Office: 18/31, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad (U.P)
Address for Correspondence: 18/41, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010

Date: 25<sup>th</sup> July, 2020

Department of Corporate Services	Department of Corporate Communications			
Bombay Stock Exchange Limited	National Stock Exchange India Limited			
Phiroj JeeJeeboy Tower,	Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex			
Dalal Street, Fort	Bandra(E)			
Mumbai-400001	Mumbai-400 051			

Ref: Scrip Code BSE: 532896 NSE: MAGNUM

Sub: Submission of copy of newspaper advertisement pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of notice of the Meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Thursday, July 30, 2020, to inter alia consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

For MAGNUM VENTURES LIMITED

Abhey Jain Whole-Time Director DIN: 01876385

Encl: as mentioned above

E-mail: magnumventures@gmail.com Website: www.magnumventures.in

### POSSESSION NOTICE

DCB BANK

Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement ) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co-borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the

The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules,

Sr. No.	Loan Account	Borrower / Co-borrower	Date of Demand Notice	Amount Demanded
1	DRBLDEL00468820	Deepak Kumar Khanna / Dream Comforts / Anjana Khanna / Tarun Khanna / Apoorv Khanna	11-07-2019	Rs. 94,60,160.38/-

Date of Possession: 20-07-2020

Description of Secured Assets: Flat No. 1005, 10th & 11th Floor, Tower Ferrara, Mahagun Mansion Phase 1, Plot No. 1/5, Vaibhay Khand, Indirapuram Ghaziabad, Uttar Pradesh -

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. Date: 24.07.2020 Authorised Officer Place: Ghaziabad DCB Bank Limited

### MGF THE MOTOR AND GENERAL FINANCE LIMITED REGD. OFFICE - MCE House 142 New Delhi-110002.

**Phone No.:** 23272216-18, 23278001- 2 **Fax No.:** 23274606 Email: mgfltd@hotmail.com, Website: http://www.mgfltd.com CIN No.: L74899DL1930PLC000208, GST No.: 07AAACT2356D2ZN NOTICE

Notice pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015, be and is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, the August 13,2020 at 50, Golf Links, New Delhi-110003 to consider and approve Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2020 under IND AS Rules and also to approve Notice for AGM, Director's Report, Closure of Register of Members & Share Transfer Books and other related matters.

Further, Trading Window is closed from July 1,2020 till 48 hours after the declaration of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended June 30,2020.

This information is also available on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively where company's shares are listed and also on website of the company www.mgfltd.com.

> By Order of the Board for THE MOTOR AND GENERAL FINANCE LIMITED

Place: New Delhi **Date:** July 23, 2020

(M.K. MADAN) VP, CS & COMPLIANCE OFFICER ACS-2951

## JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

CIN: L14106UP1995PLC019017

Regd. Office: Sector - 128, Noida - 201304, U.P. Tel.: +91(120) 2470800 Corporate Office: 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Tel.: +91(11) 49828500. Fax: 26145389 Website: www.jalindia.com, E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 31st July, 2020, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

Further details may be accessed on the Company's Website i.e. www.jalindia.com and also on the Stock Exchanges' Website at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

Place: New Delhi Date: 24" July, 2020



M.M. SIBBAL Jt. President & Company Secretary GROUP Membership No. FCS-3538

SPARK MINDA

### **Minda Corporation Limited**

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi - 110052 CIN: L74899DL1985PLC020401

Website: www.sparkminda.com, email: investor@mindacorporation.com Tel. No.: +91-124-4698400, Fax: +91-124-4698450

NOTICE

### Sub: Transfer of Equity Shares of the Minda Corporation Limited ("Company") to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more ("such shares") shall be transferred by the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA") ("Authority") within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the IEPF as per the procedure mentioned in the said Rules.

This Notice is published for those Shareholders who have not encashed the Dividend for last seven consecutive years commencing from the financial year 2012-13 on the Equity Shares of the Company held by them.

In terms of the said Rules, the last date of claiming the unclaimed dividend in respect of such shares shall be 30/10/2020 by the Shareholders, failing which, the Company shall transfer such shares to the Demat account of Authority whithin 30 days. Further in terms of the said Rules all benefits accruing on such shares like bonus shares, split. consolidation, fraction shares and the like except right issue shall also be credited to such DEMAT account.

In case the concerned shareholder held shares:

- In Physical form- New share certificate(s) will be issued and after issue of new share certificate(s), the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholders will deemed to be cancelled and non-negotiable.
- In demat form- the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF. On receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority.

The Company has dispatched individual notice at the latest available address of the concerned shareholders for the said purpose. The list containing the names of such shareholders and their folio no. or DP ID-Client ID has been uploaded on the website of the Company viz. https://sparkminda.com/wp-content/uploads/2020/07/List-of-Un-paid-Dividend.pdf

Shareholders are requested to make claim in respect of unpaid dividend on such shares on or before 30/10/2020 by submitting a written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque and the original uncashed Dividend Demand Draft to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s Skyline Financial Services Private Limited, (CIN: U74899DL1995PTC071324), D-153/A Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110 020, India or at the Registered Office of the Company failing which the Company shall transfer/ credit your shares to Demat account of the Authority.

Please note that any claimant whose shares are liable to be transferred to Demat Account of the Authority can claim shares in accordance with the procedure laid down under the said Rules.

In case shareholders have any query/clarification they may contact to the Company's Registrar & Share Transfer Agent: M/s Skyline Financial Services Private Limited, (CIN: U74899DL1995PTC071324), D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi- 110 020, India. Email: info@skylinerta.com Phone: +9111-26812682, 83, +9111-40450193-97.

> For Minda Corporation Limited **Ajay Sancheti**

Place: Delhi Dated: 25.07.2020 **Company Secretary**  PANACHE INNOVATIONS LIMITED CIN: L51100MH1981PLC312742

Regd off: 2nd Flr. Bldg No. A3, Unit 201A, Babosa Industrial, Park, Mumbai-Nashik Highway(NH3). Saravali Village, Bhiwandi, Thane - 421302, Maharashtra, IN Corp off: 201/B1, Raheja Plaza 1, L.B.S. Marg, Ghatkopar West, Mumbai 400086, MH, India, Mob: +91 8291529934

> Website: www.panachemodera.com, Email: info@panachemodera.com Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for Quarter and Year Ended 31st March, 2020.

> > Standalone

SL. No.	Particulars	Current Quarter Ending	Year to date Figures	Correspo- nding 3 months ended in the previous year	Current Quarter Ending	Year to date Figures	Correspo- nding 3 months ended in the previous year
65		31-Mar-20	31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-20	31-Mar-19
1	Total Income from Operations	439.48	1,512.43	124.20	439.48	1,512.43	131.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(23.91)	5.49	(7.12)	(11.08)	17.75	(30.42)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)	(17.91)	1.91	(6.53)	(17.37)	14.17	(29.83)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(8.09)	3.97	(4.92)	(7.57)	16.22	(28.21)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(12.15)	(5.04)	2.08	(11.62)	7.61	(19.87)
6		439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	, a	(96.96)		(94.23)		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1) Basic: 2) Diluted:	(0.18) (0.18)	0.09	(0.11)	(0.17) (0.17)	0.37	(0.64) (0.64)

1) The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record by the Board in its meeting held on 23rd July, 2020.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results (Standalone & Consolidated) filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results are available on the websites of BSE and the listed entity i.e. at www.bseindia.com and www.panachemodera.com respectively.

Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary Financial Results for all the periods presented have been prepared in accordance with IND AS notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time

The operations of the company were impacted in the month of March 2020 due to temporary shutdown of all units on account of lockdown announced by the Government of India because of Covid-19 pandemic. The company has resumed its operations in phased manner from the month of May 2020. The Management has made the initial assessment of company's liquidity and recoverability of its assets as at the balance sheet date. On the basis of such assessment, the company doesnot expect a material impact of Covid-19 on the company's liquidity and future performance.

The company has tested each of its lease agreements under the purview of Indian Accounting Standard - 116- leases' and none of the lease agreement convey the right to use asset to the company. Hence all the lease agreements are accounted for as an operating lease. Exceptional item includes loss on sale of Brand owned by the Company. The loss is on

account of transfer of brand at a price lower than the book value. Segment Information for the quarter as per Indian Accounting Standard - 108 on Operating

The auditor has given qualified opinion on the Consolidated Financial Statements based on Unaudited financial statements of subsidiary company viz. Panache Innovations DMCC Please refer Quarterly and Annual Financial Results with Unmodified / modified opinion as available on the websites of BSE and the listed entity i.e. at www.bseindia.com and www.panachemodera.com respectively.

For Panache Innovations Limited

Priyank Sango

CS & Compliance Officer

Date: 24.07.2020 Place: Mumbai

> Form G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (ROUND 2) (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

		Company of the Compan	Corporate Persons) Regulations, 2016				
	RE	LEVANT F	PARTICULARS				
1.	Name of the corporate	e debtor	NTL ELECTRONICS INDIA LIMITED				
2.	Date of incorporation o corporate debtor	ıf	26/04/2002				
3.	Authority under which is incorporated / registe		RoC-Delhi				
4.	Corporate identity numb	er	U32109DL2002PLC115129				
5.	Address of the regist principal office (if any) of		THE COLUMN TO BE RECOVERED TO THE PROPERTY OF				
6.	Insolvency commence corporate debtor	ment date of the	27th August, 2019				
7.	Date of invitation of exp	ression of interest	25th July, 2020 (ROUND 2)  Newspaper advertisement published an Company website also updated				
8.	applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Resolution Profes mentioned below.	ons for Resolution applicants to approach the sional of the Company with Resolution plans are sary expertise in running an Industry/turnaround				

2. Private/ Public Ltd. company, LLP, Body Corporate, Individual Investor whether incorporated in India or outside India - minimum

Net Worth criteria of INR 10 Crores or having an Annual Turnover of Financial Institution (FI)/ Fund/ Private Equity(PE) Investor/ Any other similar Applicant - Asset under Management of INR 25 crores Consortium Investors are allowed and for calculating Net worth,

the combined/joint Net Worth of the Consortium applicants will be The above will be based on Audited Financial Statements

https://ibbi.gov.in/legal-framework/act Norms of ineligibility (Official website of IBBI-Legal Framework-Updated Code) applicable under section The details can also be sought through email 29A are available at rp.ntlelectronicsindia@gmail.com, pujabahry@yahoo.com 10. Last date for receipt of expression of 10th August, 2020 Date of issue of provisional list of 17th August, 2020

prospective resolution applicants Last date for submission of objections to 22nd August, 2020 provisional list Date of issue of final list of prospective | 25th August, 2020 resolution applicants Date of issue of information 22nd August, 2020 memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants Manner of obtaining Information Memorandum shall be shared by the Resolution

request for resolution Professional with qualified and shortlisted Prospective plan, evaluation matrix, Resolution Applicants meeting the eligibility criteria as set out formation memorandum by the Committee of Creditors after receiving a confidentiality undertaking as per Section 29(2) of IBC, 2016. and further information Contact Ms. Pooja Bahry, appointed RP of the matter, at the contact details mentioned in point no. 21& 22. 16. Last date for submission of resolution plans | 25th September, 2020

Manner of submitting Through speed post/ registered post or by hand delivery resolution plans to addressed to Ms. Pooja Bahry, Resolution Professional of NTL resolution professional | Electronics India Ltd.(under CIRP) at 59/27, Prabhat Road, New Rohtak Road. New Delhi-110005 as well as Digital Copy in a pen drive to Resolution Professional. A soft copy of the document is required to be mailed to

rp.ntlelectronicsindia@gmail.com, pujabahry@yahoo.com 18. Estimated date for submission of 28th October, 2020 (Provisional date as resolution plan to the Adjudicating Extension of time is yet to be ordered by Authority for approval the Honble NCLT) Name and registration number of the Name: Pooja Bahry

resolution professional IP Regn. No. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063 20 Name, Address and e-mail of the Name: Pooja Bahry resolution professional, as registered Address: 59/27, Prabhat Road, New Rohtak Road, New Delhi-110005 with the Board

Email: pujabahry@yahoo.com 21 Address and email to be used for Address: 59/27, Prabhat Road, New Rohtak correspondence with the resolution Road, New Delhi-110005 professional Email: rp.ntlelectronicsindia@gmail.com

22. Further Details are available at or with The Resolution Professional at: Phone: 9811071716 Email: rp.ntlelectronicsindia@gmail.com pujabahry@yahoo.com 23. Date of publication of Form G 25th July, 2020 (ROUND 2)

Note: The above Form G (Round 2) is subject to the further Extension/ Exclusion of CIRP Period granted by the Honble NCLT, as the CIRP Period of 270 days (with further exclusion of 68 Days of Lockdown Period) is getting over on 29th July 2020. In case the said Extension Exclusion is not granted by the Honble Adjudicating Authority, the RP/ COC reserves the right to change, update, amend, supplement, modify, add to, delay or otherwise annul or cease the EON Bid Process at any point in time, without assigning any reason whatsoever.

February 2020), however based on decision taken by Committee of Creditors a Second round for inviting EOI for submission of resolution plan has been initiated. Date: 25-07-2020 Pooja Bahry Place: New Delhi IP Regn. No. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063 Reg. Address: 59/27, Prabhat Road, New Rohtak Road, New Delhi-110005

A process to invite resolution was initiated on 15th January, 2020 (with extension on 21st

For M/s Ntl Electronics India Limited (under CIRP)

MAGNUM VENTURES LIMITED CIN: L21093DL1980PLC010492 Registered Office: Office No. 205, 2nd Floor, Building No. 4326, Street No. 3, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi - 110002

Email Id: magnumventures@gmail.com Website: www.magnumventures.in NOTICE

(Rs. In Lakhs)

Consolidated

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any notice is hereby given that a Meeting of Board Directors of the Company is scheduled to be held o Thursday, the 30th day of July, 2020 at 04:00 P.M. at th corporate office of the Company at 18/31, Site-IV Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, inte alia, to consider, approve & take note of the Audited Financial Results of the Company for the quarter and Year ended 31st March, 2020. The notice is also available in the investor relatio section of the website of the Company www.magnumventures.in and also on the website Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com

www.nseindia.com

Abhey Jain Place: Delhi Date: 23<sup>rd</sup> July, 2020 Whole-time Directo SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED

By order of the Board

New-Delhi-110001 CIN: L15142DL1991PLC046469 Tel. No.: 011-43585000, Fax: 0141-43585015. E-mail: info@superiorindustrial.in, Website: www.superiorindustrial.in

Regd. Office: - 25, Bazar Lane, Bengali Market,

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is re-scheduled to be held on Friday, 31" July, 2020 at 1010,10" Floor, Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi-110001 at 11:00 A.M. and 12:00 P.M. respectively to consider and approve the audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the guarter and year ended 31" March, 2020 and other matters as per the agenda item.

Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.superiorindustrial.in) For Superior Industrial Enterprises Limited

The said notice is also available on the website of

BSE Limited (www.bseindia.com) where the

Megha Rastogi

Date: 23.07.2020 Company Secretary Place: New Delhi

P G INDUSTRY LIMITED Regd. Off.: A-30, S-11, Second Floor, Kailash Colony New Delhi-110048 Website : www.pgil.com E-mail: pgindustryltd@gmail.com CIN: L74899DL1993PLC056421 NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 2015, Meeting No. 03/2020-21 of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 31st day of July, 2020 at 05:30 P. M. at the registered office of the company to consider and approve the audited Financial Results for the quarter and Financial Year ended on March 31. 2020.

As per the provisions of the Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information and Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, trading window has been closed and will re-open 48 hours after the submission of outcome of the Board Meeting to the stock exchange for designated person. The notice is also available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on

the website of the Company.

For **P G Industry Limited** Saket Dalmia Place: New Delhi Date: 25.07.2020 Managing Director (DIN-00083636)

S Biocon EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(Rs. in Million, except per equity share data) 3 months ended Year ended 3 months ended **Particulars** 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 16,713 63,005 14,589 Total income from continuing operations Net profit before tax, exceptional items and non-controlling 11,474 2,523 3,208 interest from continuing operations III Net profit before tax and non-controlling interest from 2,523 12,149 3,208 continuing operations 1,530 7,771 2,142 Profit after tax and non-controlling interest from continuing operations Loss from discontinuing operation (36)(289)(79)VI Total comprehensive income for the period attributable to 1,113 1,510 shareholders [comprising profit for the period (after tax) and 6.168 other comprehensive income (after tax)] Paid-up equity share capital [Face value of Rs. 5 each] 6,000 6,000 6,000 Reserve (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the 61,049 Audited balance sheet of the previous year Earnings per share [of Rs. 5 each] (for continuing and (not annualised) (annualised) (not annualised) discontinuing operations) (a) Basic 1.74 1.26 6.32 (b) Diluted 1. Key standalone financial information (Rs. in Million) 3 months ended Year ended 3 months ended 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 **Particulars** (Unaudited) (Audited) (Unaudited) Continuing operations Total income from operations 5,207 19,884 4,808

1,269 5,482 1,562 Profit before tax Profit after tax 4,363 848 Discontinued operations Profit before tax 117 (52)Profit after tax (101). The unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2020 in respect of Biocon Limited ('th Company') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 23, 2020. The above results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company The reports of the statutory auditors are unqualified. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 o the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's websites

of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

www.biocon.com.

**BCC FUBA INDIA LIMITED** BCC fuba Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh -174101, Distt. Solan (H.P.) CIN: L51395HP1985PLC012209, Tel.: 8626853157, Website: www.bccfuba.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2020

					(Rs. In lacs
S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2020	Quarter Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2020	Year Ended 31.03.2019
		( Audited )	( Audited )	( Audited )	( Audited
1	Total Income from Operations	2,040.63	2,548.85	4,737.74	4,137.53
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.95	165.61	(108.96)	20.24
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.95	165.61	(94.59)	20.24
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.95	165.61	(94.59)	20.24
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	0.83	162.43	(97,47)	17.06
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Reserves (Excluding Revalution Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			1021	
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	Basic (In Rs.)	0.01	1.08	(0.64)	0.11
Į,	Diluted (In Rs.)	0.01	1.08	(0.64)	0.11

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the Stock Exchange website. (www.bseindia.com) and Company's website www.bccfuba.com. There are no extra ordinary items during the above periods.

The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current year By the order of the Board For BCC FUBA INDIA LTD. Place: New Delhi Abhinav Bhardwaj

Director (DIN 06785065)



### **DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED**

Corporate Identity Number (CIN): L74900GJ2007PLC051338 Registered Office: Dishman Corporate House, Iscon-Bopal Road, Ambli, Ahmedabad – 380 058, Gujarat, India

Phone: +91-2717- 420102/124 | Email: grievance@dishmangroup.com | Website: www.dishmangroup.com Contact Person: Ms.Shrima Dave, Company Secretary & Compliance Officer POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL

OWNERS OF EQUITY SHARES OF DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED This Public Announcement ("Post Buy-back Public Announcement") is released in compliance with the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of

India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("Buy-back Regulations"). This Post Buy-back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 17, 2020 published on January 20, 2020 ("Public Announcement"). The terms used but not defined in this Post Buy-back Public Announcement shall have the same meaning as assigned in the Public Announcement 1. THE BUY-BACK 1.1. The Board of Directors of Dishman Carbogen Amcis Limited (hereinafter referred to as the "Board"), at its meeting held on January 16, 2020 ("Board Meeting")

has, pursuant to the provisions of Article 46 of Articles of Association of the Company and Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and applicable rules made thereunder and in compliance with the Buy-back Regulations and subject to such other approvals permissions and sanctions as may be necessary, approved the Buy-back of fully paid up equity shares by the Company having face value of ₹ 2/- each ("Equity Share(s)") from open market through stock exchange mechanism prescribed under the Buy-back Regulations from the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company other than the Promoters, members of Promoter Group and persons in control of the Company, for an amount not exceeding ₹72,00,00,000/- (Rupees Seventy Two Crores Only) excluding transaction costs viz. fees, brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, income tax, stamp duty, etc. ("Transaction Costs") ("Maximum Buy-back Size") at a price not exceeding ₹ 150/- (Rupees One Hundred and Fifty Only) per Equity Share ("Maximum Buy-back Price") payable in cash. 1.2. The Buy-back commenced on Monday, January 27, 2020 and closed on Friday, July 24, 2020 (both days inclusive).

Date : July 24, 2020

1.3. Till the date of closure of the Buy-back, the Company has bought back 46.11.177 Equity Shares at an average price of ₹ 75.18/- per Equity Share for an aggregate consideration of ₹ 34,66,87,214.45/- (Rupees Thirty Four Crores Sixty Six Lakh Eighty Seven Thousand Two Hundred Fourteen and Paise Forty Five Only) excluding Transaction Costs which represents 48.15% of the Maximum Buy-back Size.

2. DETAILS OF BUY-BACK

2.1. 46,11,177 Equity Shares (representing 2.86% of pre Buy-back paid equity share capital of the Company) were bought back under the Buy-back at an average price of ₹ 75.18/- per Equity Share. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 110.80/- per Equity Share while the lowest price was ₹ 48.00/- per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Shah Investor's Home Limited ("Company's Broker") and exclude Transaction Costs. The total amount utilized in the Buy-back is ₹ 34,66,87,214.45/- (Rupees Thirty Four Crores Sixty Six Lakh Eighty Seven Thousand Two Hundred Fourteen and

Paise Forty Five Only) excluding the Transaction Costs which represents 48.15% of the Maximum Buy-back Size. 2.3. The pay-out formalities shall be completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has extinguished all Equity Shares (i.e.,

46.11,177 Equity Shares) bought back till date. 2.4. All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. No physical shares were accepted or bought back in the Buy-back. As the

Buy-back was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buy-back is not known. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The Pre and Post Buy-back Capital structure of the Company is as under:

Pre Buy-back as on the date of Public Announcement Sr. Post Buy-back **Particulars** No. No. of Shares No. of Shares Amount (₹) Amount (₹) 1 Authorized Share Capital 17.02.50.000 Equity Shares of ₹ 2/- each 34.05.00.000 | 17.02.50.000 Equity Shares of ₹ 2/- each | 34.05.00.000 2 Issued, Subscribed and Paid-up Capital | 16,13,94,272 Equity Shares of ₹ 2/- each | 32,27,88,544 | 15,67,83,095 Equity Shares of ₹ 2/- each | 31,35,66,190

3.2. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buy-back, is as under:

Particulars		as on the date of nouncement	Post Buy-back		
Particulars	No. of Equity Shares	% of the equity share capital	No. of Equity Shares	% of the equity share capital	
Promoters and Promoter Group	9,90,96,898	61.40	9,90,96,898	63.21	
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds)	1,43,26,704	8.88		36.79	
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,47,16,381	15.31	5,76,86,197		
Others (public, public bodies corporate etc.)	2,32,54,289	14.41			
Total	16,13,94,272	100.00	15,67,83,095	100.00	

MANAGER TO THE BUY-BACK



**VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Center,

Paldi, Ahmedabad - 380007, Gujarat, India

Tel No.: +91-79-4040 4242 | Fax No.:+91-79-2665 0570

Contact Person(s): Mr. Bhargav Parekh | Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net SEBI Registration No: INM000010122 | Validity: Permanent | CIN: U67120GJ1996PTC029182

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. For and on behalf of the Board of Directors of Dishman Carbogen Amcis Limited

Sd/-Sd/-

Sd/-Arpit J. Vyas Deohooti J. Vvas Shrima Dave **Global Managing Director** Company Secretary & Compliance Officer Whole Time Director DIN: 01540057 DIN: 00004876 (Membership Number: A29292) Place: Ahmedabad Date: July 24, 2020

New Delhi

financialexp.epa

## स्वतंत्रता दिवस समारोह: इस बार अतिथियों की संख्या होगी कम

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

कोरोना का प्रभाव इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर भी दिखेगा और ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या कम की जाएगी वहीं स्कूली बच्चे भी इस बार नहीं दिखेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और वे हर साल की तरह ही सख्त होंगे। दल में शामिल पुलिसकर्मी भी निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनेंगे। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मोनिका भारहाज ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान कड़ी सुरक्षा होगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के कर्मियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा मानदंड का पालन किया जाएगा। इस वर्ष समारोह में स्कुली बच्चे शामिल नहीं होंगे।

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि

किसी व्यक्ति के हिसक कृत्य के

प्रति कोई महिला कैसी प्रतिक्रिया

करेगी, इसके बारे में कोई तय

फॉर्मुला नहीं हो सकता, लेकिन

एक नौजवान को पुख्ता सबतों के

बगैर ही अनिश्चित काल के लिए

कैद रखना स्वतंत्रता की अवधारणा

के खिलाफ होगा। न्यायमूर्ति भारती

डांगरे ने 21 जुलाई को बलात्कार

और उत्पीड़न के एक मामले के

आरोपी 24 वर्षीय व्यक्ति को

जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

आरोपी को दिसंबर 2019 में

गिरफ्तार किया गया था और तब से

25 नवंबर को दर्ज किया गया था,

जब 25 वर्षीय महिला ने आरोप

लगाया था कि आरोपी ने 28

अक्टूबर, 2019 को लोनावाला

की आम्बी घाटी में उसके साथ

बलात्कार किया और उसका

उत्पीड़न किया। पीड़िता के

अनुसार, वह पिछले आठ बरसों

से आरोपी को जानती थी और वे

कुछ दोस्तों के साथ दिवाली मनाने

महिला ने अपनी मां को इस घटना

के बारे में बताया, जिसके बाद

उन्होंने पूणे में संबंधित पुलिस

स्टेशन से संपर्क किया और 8

नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज

कराई। आरोपी को जमानत पर

रिहा करने का अनुरोध करते हुए

उसके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने

दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड

पंजी. कार्या.: यूजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट

सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

CIN: L74899DL1994PLC061107

Email ID:cmbldelhi@gmail.com

Ph. No. 91-11-65382244

Website: www.cmbl.co.in

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन

2015 के विनियमन 29 एवं विनियमन 33 के साथ पठित

विनियमन 47 के अनुपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता

है कि मै. कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल

की एक बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को पंजीकृत

कार्यालय में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिये

कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य बातों के

विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात्

www.cmbl.co.in तथा साथ हीं बीएसई लिमिटेड एवं

एमएसई आई लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात्

https://www.bseindia.com एवं www.msei.in

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के लिये

पर्ने वेंकटेश्वर रेड्डी

निदेशक

जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

अलावे विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

अपनी यात्रा से लौटने पर

के लिए आम्बी घाटी गए थे।

अदालत के अनुसार, मामला

वह जेल में है।

बंबई हाई कोर्ट ने कहा

जुल्म पर किसी महिला की

प्रतिक्रिया का कोई तय

फॉर्मूला नहीं हो सकता

करने में देरी हुई है और इस विलंब

की वजह भी स्पष्ट नहीं की गई है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा

कि पीडिता ने दावा किया कि

आरोपी को उसके साथ छेड़छाड़

करने से रोकने के लिए उसने शोर

मचाया था और यह आश्चर्यजनक

था कि एक ही बंगले में रहने के

बावजुद उसका कोई भी दोस्त

प्रस्तत सामग्री और आरोप पत्र को

देखने के बाद कहा कि यह मानने

के लिए इससे एक उचित आधार

नहीं बनता है कि आवेदक अपराध

का दोषी है। न्यायमूर्ति डांगरे ने

कहा कि इस बारे में एक सीधा

फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि एक

महिला किसी पुरुष द्वारा उत्पीड़न

पर कैसे प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि

सभी महिलाएं अलग-अलग

THE DELHI STATE

COOPERATIVE BANK LTD.

(A SCHEDULED BANK)

Head Office: 31, Netaji Subhash Marg

Daryaganj, New Delhi - 110002

CORRIGENDUM

Please read 30.06.2020 instead of

17.06.2020 in the Abridged Balance

Sheet & Profit & Loss Account

published in this newspaper on

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः आर-4, युनिट नं. 103, प्रथम

परिस्थितियों में पैदा होती हैं।

अदालत ने अभियोजन द्वारा

उसके बचाव में नहीं आया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया परामर्श समारोह में नहीं दिखेंगे स्कूली बच्चे

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अतिथियों की संख्या भी इस बार कम होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों व और राजनियकों की उपस्थिति होती है। आम लोगों को भी इसमें शामिल होने की अनुमित रहती है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस बार समारोह में आम जनता को अनुमित नहीं देने का प्रस्ताव है। इसके बदले 1.500 कोरोना योद्धाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनमें 500 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो संक्रमण से उबर चके हैं। उन्होंने कहा कि यह अभी प्रस्ताव स्तर पर है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इस बीच केंद्र ने कोरोना के मद्देनजर सभी राज्यों से बड़े आयोजनों से बचने, सामाजिक

दूरी सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता दिवस समारोहों का वेबकास्ट करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान को देखते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकर्ताओं जैसे कोविड-19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा संक्रमण से उबर चुके कुछ लोगों को

भी आमंत्रित किया जा सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि सभी कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि लोगों का समह एकत्र नहीं हो और प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दिल्ली के लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री का संबोधन, राष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने साईबाबा की जमानत का किया विरोध

नागपुर, 24 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने यहां बंबई हाई कोर्ट की पीठ के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा की जमानत अर्जी का शुक्रवार को विरोध किया। इसके साथ ही कहा कि उनकी उचित चिकित्सा देखभाल हो रही है और उन्हें एक अलग कोठरी में रखा गया है जहां कोविड-19 संक्रमण का कोई। खतरा नहीं है।

साईबाबा माओवादियों के साथ संबंधों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और मई 2014 से नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। वह व्हीलचेयर के जरिए चल पाते हैं। और उनका शरीर 90 फीसद से अधिक दिव्यांग है।

पिछले हफ्ते ही उन्होंने बंबई हाई कोर्ट की नागपुर

था और उन्हें इसकी तैयारी के लिए समय की

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सने जा रहे हैं। तरुण

तेजपाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल

सिब्बल ने कहा, 'अगर हमने नौ वर्षों तक इंतजार

किया तो अब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी क्या

जल्दी है।' इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि

अदालत मामले की सुनवाई में जल्दबाजी नहीं

सभी रिकॉर्ड नहीं हैं और शायद अदालत के पास

ये रिकॉर्ड हैं तो इस पर न्यायमुर्ति मिश्रा ने कहा,

'हम जानते हैं कि श्रीमान धवन आपकी बहुत

अच्छी याददाश्त हैं और आप दलीलें देना बहुत

वह बहुत बुजुर्ग हैं और उन्हें इस मामले में दलीलें

पीठ ने वरिष्ठ वकील शांति भूषण से कहा कि

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र

शगुण वाजपई

अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं।'

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड

CIN No.: L34300DL1983PLC016136

Phones: 91-11-66155129/+91-120-4588500/ Fax No: +91-120-4588513

e-mail: info@raclgeartech.com/ Website: www.raclgeartech.com

नारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के प्रावधानों

अनुपालन में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड ''कम्पनी'' के निदेशक मंडल की एक बैठक

भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2020 कं

ामाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचैँज की वेबसाईट अर्थात् www.bsein

पनः सेबी (इन्सायडर टेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा इन्सायडरों द्वारा टेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये

कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन में ट्रेडिंग विण्डो बुधवार, 1 जुलाई, 2020 से कम्पनी के उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

CIN:L74899DL1989PLC035140

Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building,

18 Barakhamba Road, New Delhi -110001 **Phone No.** : 011-43745000,

Email: investorservices@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video

Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 2nd

September, 2020 at 11.00 AM, in compliance with all applicable provisions of the

Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular

No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with

Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant circulars").

to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM. Members will be able to

attend the e-AGM through VC/ OAVM or view the telecast at https://emeetings.

kfintech.com. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the stand alone

and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with

Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto,

will be sent to all the members of the Company whose email address are registered

with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be

available on the Company's website at www.dcmsr.com and on the website of the

Stock Exchange i.e, BSE Limited and on the website of Company's Registrars and

Transfer Agents, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin Tech") at https://evoting.

a) Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their

email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by

clicking on https://ris.kfintech.com/email\_registration/ or by writing to the Company

with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at

investorservices@dcmsr.com or to KFin Technologies Pvt. Ltd. at einward.ris@

b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in

b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM which will be

mailed in the first week of August, 2020. The details will also be available on the

website of the Company at www.dcmsr.com and on the website of KFin

the AGM ("Insta Poll") during Video Conference and Members attending the AGM

who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM

or whose email addresses are not registered with the Company/ KFin

Technologies Pvt. Ltd./ Depository Participant(s), may generate login

credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM,

e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through

AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote

Mail ID: ashishiha@dcmsr.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s.

KFin Technologies Private Limited (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited")

having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032.

Contact details: Tel: +91 40 6716 2222 or Toll Free No.: 1800-345-4001; or send an

5. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the

For any query members may contact the Company at 011- 43745077 (Ashish Jha)/ E-

c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at

d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email

the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/

update their email addresses with the Depository Participants with whom they

the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of registering / updating email addresses:

karvy.com/public/Downloads.aspx

maintain their demat accounts.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Technologies Pvt. Ltd. at https://evoting.karvy.com

which will be mailed in the first week of August, 2020.

through remote e-voting or through Insta Poll during the e-AGM.

email request at the email id:einward.ris@kfintech.com

Place: Delhi

Dated: 27.06.2020

नहीं देनी चाहिए।

जब धवन ने कहा कि उनके पास मामले के

पीठ ने कहा कि संविधान पीठ तक के मामले

पीठ के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की थी। साईबाबा वकील निहालसिंह राठौड़ माध्यम से दाखिल याचिका में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की थी। न्यायाधीश जेड ए हक और न्यायाधीश एसएम मोदक की पीठ ने शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 द्रभाष: 011-69999350

CIN: L67120DL1984PLC018800

**Email ID:** neweraleasingfinance@gmail.com

Website: www.neweraleasingfinance.com

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचन प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अन्य तथ्यों के साथ विचार अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतू न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड ("दि कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 में शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को सायं 04:00 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।

> कृते न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-

**तिथि**: 25-07-2020 रास बिहारी शर्मा **स्थान**: नई दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक)

लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड विदित) CIN:L74130DL1984PLC19469 पंजी. कार्यालयः 120, लोकल शॉपिंग सेन्टर, ऑरविन्दो प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली-110016

फोन नं.-011-41074949

फैक्स नं.-011-41074949 E-mail: galaxycommerciallimited@gmail.com

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 वे विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शक्रवार, 31 जलाई 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातो के अलावा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय परिणामों (अंकेक्षित) तथा उस तिथि को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार तथ अनमोदन किये जाएंगे तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय पर चर्चा की जायेगी।

इस सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.www.LLFLI.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड

कम्पनी सचिव तिथि: 24 जुलाई, 2020

लालजी टंडन की अस्थियां संगम में विसर्जित

प्रयागराज, २४ जुलाई (भाषा)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की अस्थियां शुक्रवार को उनके छोटे बेटे सुबोध टंडन ने यहां संगम में विसर्जित की। टंडन के लगभग 24 वर्षों तक निजी सचिव रहे संजय चौधरी ने बताया कि

बाबू जी (लालजी टंडन) का प्रयागराज से विशेष लगाव रहा है।

पंजाब नैशनल बैंक 🕒

punjab national bank ...the name you can BANK upon I

(9810801268)

**SUN ALTERNATE ENERGY PRIVATE LIMITED** 

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. ४, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

वेतन/पेंशन खाता धारक रक्षा कार्मिकों हेतु जीपीए बीमा पॉलिसियों के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों से वेतन/पेंशन खाता घारक रक्षा कार्मिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/ इच्छ्क सामान्य बीमा कंपनियां अपनी बोलियाँ 21 अगस्त 2020 को अप. 3.00 बजे तक या

इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. ४, सेक्टर — १०, द्वारका, नई दिल्ली — ११००७५ को प्रेषित करें। उक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/विस्तार की तिथि/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट

https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छक बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है। मुख्य प्रबंधक

25.07.2020

Name of corporate debtor

Form A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SUN ALTERNATE ENERGY PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

Date of incorporation of corporate debtor 21/06/2010 Authority under which corporate debtor Companies Act, 1956, Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New Delhi is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability U40108DL2010PTC204419 dentification No. of corporate debtor Address of the registered office and Registered Office: 11, Ground Floor, principal office (if any) of corporate debtor Community Centre, Saket, Delhi 110017 Corporate Office: Unit No.1106-1107, 11th Floor, Tower-B, SAS Tower, Sector-38 Gurgaon-122001 Insolvency commencement date in respect 22nd July, 2020 (Order was pronounced on 22/07/2020 by Hon'ble NCLT, Delhi Bench VI of corporate debtor

in C.P. No. IB-2359/(ND)/2019) Estimated date of closure of insolvency 18th January, 2021 resolution process

IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834 insolvency professional acting as interim resolution professional Address and e-mail of the interim 4/180, Ground Floor Backside, Subhash Nagar, New Delhi-110027 resolution professional, as registered with the Board Email: rbajajip@gmail.com 4/180, Ground Floor Backside, Subhash 10. Address and e-mail to be used for

correspondence with the interim Nagar, New Delhi-110027 resolution professional Email: cirpsunalternate@gmail.com Last date for submission of claims 05th August, 2020 2. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, Not Applicable ascertained by the interim resolution

3. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Not Applicable Representative of creditors in a class (Three names for each class) 4. (a) Relevant Forms and Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads

Physical Address: Not Applicable

commencement of a corporate insolvency resolution process of the SUN ALTERNATE ENERGY PRIVATE LIMITED on 22nd July, 2020. The creditors of SUN ALTERNATE ENERGY PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 05th August, 2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal has ordered the

may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Rajiv Bajaj

IRP of SUN ALTERNATE ENERGY PRIVATE LIMITED Date : 25.07.2020 Place : New Delhi IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

# स्थान: नर्ड दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय : द गैलेरिया, डीएलएफ मयुर विहार, इकाई सं. 236 एवं 237, द्वितीय तल, मयुर प्लेस, मयुर विहार फेज-I एक्स., दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालय : ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003,

ई-मेल : info@srf.com; वेबसाइट : www.srf.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी अधिनियम, 2013 के समस्त प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 निर्गत सुचीबद्धता विनियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम दिनांक 08 जुलाई, 2020 की सूचना में निर्धारित के अनुसार प्रकाय के लेन-देन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 17 अगस्त,

एजीएम तथा वार्षिक रिपोर्ट की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि./डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात क्रमशः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथाकम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेन्ट, केफिन कम्पनी 49वीं वार्षिक आम बैठक में अपने सदस्यों के अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों की सुविधा उपलब्ध करा रही है और और सूचना में निर्धारित प्रकार्य केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सम्पन्न किये जा सकते हैं। सदस्य निम्नलिखित पर ध्यान दें:

(अ) अभौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा इंस्टा पोल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग निर्देश तथा रीति, भौतिक माध्यम एवं जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे वार्षिक आम बैठक की सचना का अभिन्न अंग निर्मित करते हैं जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा केफिन टेक की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित है।

तक कम्पनी के इक्विटी पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि (अर्थात 10 अगस्त, 2020) को शेयर धारण करता है, वह केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करके यजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(स) रिमोट वोटिंग पोर्टल शक्रवार, 14 अगस्त, 2020 को 9.00 बजे पर्वाहन से रविवार, 16 अगस्त, 2020 तक खलेगा उपर्युक्त निर्धारित तिथि के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी।

माध्यम से भेज दिये गये हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए इसी लॉगिन विवरण का उपयोग किया जाना चाहिए।

(य) ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए श्री बी. वेंकट किशोर-उप-प्रबन्धक, ई-मेल आईडी evoting@karvy.com, दूरभाष नं. 040-4467122 से सम्पर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ''इंस्टा पोल'' के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा बैठक के दौरान उपलब्ध करायी जायेगी और बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे ''इंस्टा पोल'' के माध्यम से बैठक में मतदान करने में समर्थ हो सकेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर चुकने के पश्चात भी सदस्य 49वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः एजीएम में मतदान करने की अनुमित नहीं होगी।

(https://evoting.karvy.com) पर चेयरमैन या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के पश्चात तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा। परिणामों को तुरन्त बीएसई तथा एनएसई के पास भी अग्रेषित कर दिया जायेगा।

रजत लखनपाल वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव

गान भी होगा।

### प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के वरिष्ठ वकीलों द्वारा और समय मांगने के बाद उनके खिलाफ 2009 के अवमानना मामले में सनवाई चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित तौर पर अवमानना करने वाले व्यक्तियों की पैरवी कर रहे वकीलों को तैयारी के लिए समय देगी और उसने मामले की सुनवाई चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

मामले में मध्यस्थ वरिष्ठ वकील शांति भषण ने कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दलीलें देने में काफी दिक्कत होती है और अगर सामान्य रूप से सुनवाई शुरू होने के बाद मामले को सुना जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वह अदालतों की डिजिटल माध्यम से हो रही सनवाइयों को लेकर सुविधाजनक महसूस नहीं

RACL

तिथि: 24 जुलाई, 2020

भूषण की ओर से पेश हए विष्टि वकील राजीव धवन रो

Email Id: magnumventures@gmail.com,

बी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन. 2015 है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 30 जुला

तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार त यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.magnumventures.in निवेशक संपर्क खंड तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अध

पर्ण-कालिक निदे

सर्या इंडिया लिमिटेड CIN: L74899DL1985PLC019991 स्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-44

तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, दिल्ली- 110017 CIN: L74899DL1993PLC055768 info@alchemist-corp.com/011-29544474

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की 2री बैठक (वित्त वर्ष 2020-2021 के लिये) बधवार, 5 अगस्त, 2020 को 02.30 बजे अप. में आर-4, युनिट नं. 103, प्रथम तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जन, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये समेकित तथा स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनमति से आवश्यक किसी अन्य मामलों पर विचार. अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर टेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशकों/ अधिकारियों/ विर्निदिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभितयों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1 जुलाई 2020 से 7 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.alchemist-corp.com तथा बम्बई स्टॉक एक्सचैंज की साइट अर्थात www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभृतियां सुचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध

बोर्ड के आदेश एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये अमोल माथुर स्थानः नई दिल्ली

Tel: +91 11 45204115, Fax: +91 11 28898016 Email: cs@haldiram.com Website: www.suryaindialtd.com

उक्त उद्देश्य से कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार वे लिये ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी की 'इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध संहिता' तथा सेबी (इन्सायडर टेडिंग निषेध) विनियमन 2015 के अनुसार सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, उनके सगे-संबंधियों, कम्पनी के निदेशकों एवं प्रवर्त्तकों के लिये अप्रैल, 2020 से ही बंद है तथा वह 30 जून, 2020 कं समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषण

हस्ता.

(जितेश ग्रोवर) कम्पनी सचिव एम.नं. एफ-7542

LIBERTY

### लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

पंज़ीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114. हरियाणा कॉर्पोरेट ऑफिस: भूतल, टावॅर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

विनियम 29 तथा 47 के अनुपालन में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

कृते लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

हस्ताक्षर/-मुनीष काकरा मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

# कहा कि यह मामला पिछले 9-10 वर्षों से लंबित

जरूरत है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

4326, गली नं. 3, अंसारी रोड, दरियागंज दिल्ली-1100**0** 

Website: www.magnumventures.in

साइट-IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 मार्च, 2020 को समाप्त

तेथि: 23 जुलाई, 2020

कार्यालयः बी-1/एफ-12, मोहन को-ऑपरेटिव इंड

सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पर्न के निदेशक मंडल की एक बैठक शक्रवार, 31 जुलाई 2020 को 4.30 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ऑडिटरों के रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 के समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिये कम्पनी वे अंकेक्षित वित्तीय विवरणों तथा परिणामों पर विचार तथ अनमोदन किये जाएंगे।

के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा।

यह सूचना बीएसई लिमिटेड जहाँ कम्पनी के शेय सूचीबद्ध हैं की वेबसाईट (www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट (www.suryain dialtd.com) पर भी उपलब्ध है।

तिथि: 24.7.2020 स्थान: नई दिल्ली

### तिथि: 23.07.2020 तिथि: 24.7.2020 (कम्पनी सचिव) DIN:06446233

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185 दुरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222

### सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।



Y.D. Gupta **Company Secretary** 

By order of Board of Directors

दिनांक : 24 जुलाई, 2020

स्थान : गुरुग्राम

# SRF

### एसआरएफ लिमिटेड

सीआईएन : L18101DL1970PLC005197

दूरभाष : +91-124-4354400, फैक्स : +91-124-4354500,

(b) Details of authorized representatives

## वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग की सूचना

2020 को 11.00 बजे पूर्वा. आयोजित की जायेगी।

टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिन टेक'') की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

(ब) सदस्यों के रिमोट ई-वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि (अर्थात रिकार्ड तिथि) जो सोमवार, 10 अगस्त, 2020 है,

(द) ई-वोटिंग से सम्बन्धित यूजर आईडी तथा पासवर्ड के विवरण सिंहत सूचना एवं निर्देश सदस्यों के पास ई-मेल के

संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा केफिन टेक की वेबसाइट

कृते एसआरएफ लिमिटेड

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः बुधवार, 22 जुलाई, 2020